



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार जुलाई 20, 1979/असाधा 29, 1901

No. 142]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1979/ASADHA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1979

संख्या 5/6/77 एक (आई)।—सरकार ने अपने संकल्प संख्या 5/6/77 एक (आई) दिनांक 8 मई, 1979 के द्वारा निर्माण, खतरण, प्रदर्शन तथा कराधान जैसे क्षेत्रों में फिल्म उद्योग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने तथा राष्ट्रीय फिल्म नीति, जो भारतीय सिनेमा के संवर्धन में सहायक हो, सुझाने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों का एक कार्यदल गठित किया था —

- 1 डा० के० एम० करन्ध
- 2 श्री एम० भक्तवत्सल
- 3 श्री श्याम बेनेगल
- 4 श्री टी० सी० बड़नालया
- 5 श्री बिश्वम मिश्र
- 6 श्रीमती त्रिजया मर्
- 7 श्री बसु भट्टाचार्य
- 8 श्री मनोज कुमार
- 9 श्री रामानन्ध सागर
- 10 श्री अदूर गोपालकृष्ण
- 11 श्री तरुण मुजुमदार
- 12 महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम
- 13 बंगाल और पंजाब को राज्य
- 14 सरकारों द्वारा नामित किए जाने
- 15 वाले प्रतिनिधि ।

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

16 श्री आर० के० शास्त्री

सदस्य सचिव

यह निर्णय लिया गया है कि फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष डा० जगदीश पागीज को सदस्य के रूप में शामिल करके कार्यदल का विस्तार किया जाए । यह भी निर्णय लिया गया है कि श्री आर० के० शास्त्री, जिन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायक सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है, के स्थान पर श्री एम० एल० कपूर को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाए । विषय और अन्य बातें वही हैं जो 8 मई, 1979 के संकल्प में निर्धारित हैं ।

प्रादेश

प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति कार्यदल के अध्यक्ष/सदस्यों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों तथा सब शामिल क्षेत्रों को भेज दी जाए

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प का सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सुरेश कुमार सहगल, सचिव

# MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING RESOLUTION

New Delhi, the 20th July, 1979

No. 5/6/77-F(1).—The Government vide their Resolution No. 5/6/77-F(i) dated the 8th May, 1979 constituted a working Group of the following to study the present state of the film industry in areas such as production, distributions, exhibition and taxation and to suggest a National Film Policy which would help the growth of Indian cinema :-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Dr. K. S. Karanth   | —Chairman |
| 2. Shri M. Bhaktavatsala                                     | —Member   |
| 3. Shri Shyam Benegal  | —Member   |
| 4. Shri T. C. Barjatya                                       | —Member   |
| 5. Shri Vikram Singh   | —Member   |
| 6. Shrimati Vijaya Mulay                                     | —Member   |
| 7. Shri Basu Bhattacharyya                                   | —Member   |
| 8. Shri Manoj Kumar  | —Member   |
| 9. Shri Ramanand Sagar                                       | —Member   |
| 10. Shri Adoor Gopalakrishnan                                | —Member   |
| 11. Shri Tarun Majumda                                       | —Members  |
| 12. Representatives to be nominated by the state Governments | } Members |
| 14. of Maharashtra, Tamilnadu, West Bengal & Punjab          |           |
|  |           |

16. Shri R. K. Shastri

—Member  
Secretary

It has been decided to expand the Working Group by the inclusion of Dr. Jagdish Parikh, Chairman, Film Finance Corporation as a Member. It has also been decided to appoint Shri S.L. Kapur as Member Secretary vice Shri R. K. Shastri relinquished the Office of Joint Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting. The terms of reference and other conditions laid down in the Resolution of 8th May 1979 remain the same.

## ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman/Members of the Working Group, Prime Minister's Office, all Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SAHGAL, Secy.